

जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभाव

चर्चा में क्यों?

जैविक विज्ञान को समर्पित पत्रिका PLOS Biology (पी.एल.ओ.एस. बायोलॉजी) में प्रकाशित एक रपॉर्ट के अनुसार, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली लगभग 84% प्रतशित प्रजातियों पर मानवीय प्रभाव परलिक्षति होते हैं।

प्रमुख बदि

- क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के जेम्स एलन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभावों का अध्ययन किया है।
- यह अध्ययन 5,457 संकटापन्न प्रजातियों पर आधारित है जिनमें 1,277 स्तनधारी, 2,120 पक्षी और 2,060 उभयचर शामिल हैं।
- टीम ने आठ मानव गतिविधियों के प्रभावों का मानचित्रण किया। इन आठ गतिविधियों में शिकार और कृषि के लिये प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण किया जाना भी शामिल है।
- 1237 प्रजातियाँ अपने 90 प्रतशित से अधिक आवासों में और 395 प्रजातियाँ अपनी संपूर्ण सीमा में मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हैं।
- जहाँ 72% प्रजातियाँ इन 'हॉटस्पॉट' से गुजरने वाली सड़क मार्गों के कारण प्रभावित होती हैं वहीं सबसे अधिक 3834 प्रजातियाँ प्राकृतिक आवासों के कृषि भूमि में रूपांतरण के कारण प्रभावित हैं।
- औसत 125 प्रभावित प्रजातियों के साथ मलेशिया अत्यधिक प्रभावित प्रजातियों वाले देशों में पहले स्थान पर है।
- भारत में औसत 35 प्रजातियाँ प्रभावित हैं और यह 16वें स्थान पर है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व हिमालय शामिल हैं, प्रभावित प्रजातियों के 'हॉटस्पॉट' हैं।
- जहाँ दक्षिण-पश्चिमी घाट में प्रभावित होने वाली प्रजातियों की औसत संख्या 60 है, वहीं हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय वसित वन में औसत 53 प्रजातियाँ प्रभावित हैं।

नषिकर्ष

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, अतः यहाँ विकास की योजना इस तरह से बनाने की आवश्यकता है कि विन्यजीव और जैव-विविधता से समृद्ध क्षेत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता मिले।

स्रोत: द हट्टि